



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 2013/माघ 11, 1934

No. 273]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2013/MAGHA 11, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2013

**का.आ. 295(अ).**—जबकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 के नियम 23 के साथ पठित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में, उत्कल विश्वविद्यालय, वाणी विहार, भुवनेश्वर-751004 (ओडिशा) की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के एक सदस्य को उक्त विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित किया गया है;

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार अब भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तारीख 21 अगस्त, 1971 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3259(अ) में निम्नांकित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, “धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित” शीर्षक के अधीन, निम्नलिखित विश्वविद्यालय और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

सदस्य का विवरण	चिकित्सा पद्धति	संकाय में सदस्यता की वैध अवधि
(1)	(2)	(3)
डॉ. डी. पी. दास, विभागाध्यक्ष, काय-चिकित्सा स्नातकोत्तर विभाग, जी. ए. महाविद्यालय, पुरी (ओडिशा)	आयुर्वेद	25 मई, 2012 से पांच वर्ष की अवधि हेतु, अथवा जब तक उनका उत्तराधिकारी विधिवत निर्वाचित नहीं होता है, अथवा जब तक उनकी उत्कल विश्वविद्यालय, वाणी विहार, भुवनेश्वर-751004 (ओडिशा) की आयुर्वेद संकाय की सदस्यता समाप्त नहीं हो जाती है।

[फा. सं. ए. 11019/50/2012-ईसी/सीसीआईएम विश्वविद्यालय निर्वाचन]

राज प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2013

**S.O. 295(E).**—Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) read with the rule 23 of the Indian Medicine Central Council (Election) Rules, 1975, one member from Ayurveda system of Medicine of Utkal University, Vani Vihar, Bhubaneswar-751004 (Orissa) has been elected from amongst themselves by the members of Ayurveda faculty of the said University;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, number S.O. 3259(E), dated the 21st August, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading “Elected under clause (b) of sub-section (1) of Section 3”, in the Table, against the following University and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

Particulars of the member	System of Medicine	Valid term of Membership in the Faculty
(1)	(2)	(3)
Dr. D. P. Das, Head, P. G. Department of Kayachikista, G. A. Mahavidyalaya, Puri (Orissa)	Ayurveda	With effect from the 25th day of May, 2012 for a period of five years, or until his successor has been duly elected, or till he ceases to be a member of the Faculty of Ayurveda of Utkal University, Vani Vihar, Bhubaneswar-751004(Orissa)

[F. No. A.11019/50/20

12-EC/CCM University Election]

RAJ PRATAP SINGH, Jt. Secy.